



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05122024-259177
CG-MH-E-05122024-259177

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4807]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024/अग्रहायण 12, 1946

No. 4807]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 2024/AGRAHAYANA 12, 1946

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 29 नवम्बर, 2024.

का.आ. 5199(अ).— केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एंव रेल्वे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिये, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिला में "कल्याण-आसनगांव चौथी लाईन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, कल्याण, जिला ठाणे, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की

सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में तालुका कल्याण के अंतर्गत वावेघर और गुरवली गांव का सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, कल्याण के अधीन विशेष रेल परियोजना “कल्याण-आसनगांव चौथी लाईन” के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण:

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गांव का नाम	तालुका	भूधारक का नाम	सर्वे नं.	भूधारणा पद्धती	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर)	संपादन क्षेत्र (हे.आर)
1	156/202 2	वावेघर	कल्याण	अंजना उर्फ कमळ बबन शेलार शरद बबन शेलार मुरली बबन शेलार सुनंदा यशवंत तारमाळे रोहिणी जगन कडव	24	2	0.0510	0.0043
2	156/202 2	वावेघर	कल्याण	महादु नऊ शेलार	25	2	0.3030	0.0180
3	156/202 2	वावेघर	कल्याण	शंकर दगडु शेलार सुंदराबाई तुकाराम लोणे हरिदास विठ्ठल शेलार मिना प्रल्हाद टोके शेवंताबाई पांडुरंग शेलार संतोष पांडुरंग शेलार बेबीबाई रामचंद्र लोणे गोटीराम पांडुरंग शेलार रतन रमेश मते रंजना मधुकर मते सुनिता संजय पाटील आनंदीबाई सोनु शेलार शांताराम सोनु शेलार सुधाकर सोनु शेलार विजय सोनु शेलार नारायण सोनु शेलार	31 पै.	2	5.1000	0.0344

				नरेश सोनु शेलार दिपक सोनु शेलार सुमन पुंडलिक सातपुते मनिषा कमलाकर गायकर कुंडलिक दामु शेलार बबन दामु शेलार लक्ष्मीबाई बाबु शेलार सुरेश बाबु शेलार अशोक दामु शेलार कमलाकर दामु शेलार भास्कर दामु शेलार भास्कर दामु पाटील बंसराज पुनवासी यादव कल्पना अशोक उबाले महादू नाऊ शेलार ताराबाई मंगळ कशिवले मंगळ रामचंद्र कशिवले				
4	156/202 2	वावेघ र	कल्या ण	कुंडलिक दामु शेलार बबन दामु शेलार सुरेश बाळू शेलार अशोक दामु शेलार कमलाकर दामु शेलार भास्कर दामु शेलार	30 पै.	1	2.1700	0.0278
5	156/202 2	वावेघ र	कल्या ण	सुरेश बाळू शेलार अशोक दामु शेलार कमलाकर दामु शेलार कुंडलिक दामु शेलार बबन दामु शेलार भास्कर दामु शेलार ओमप्रकाश मुनीराज यादव योगेश दिवाकर भट	34 पै.	1	2.6200	0.0115
कुल							10.244	0.0960
6	161/202 2	गुरव ली	कल्या ण	सुंदराबाई गोविंद भोईर जीऊबाई सिताराम पाटील	95/2 पै.	1	0.2500	0.0261

				सखु बाबु भालेराव अनुसया शिवा दळवी गोपीनाथ शिवा दळवी गंगाराम वामन दळवी बबन शिवा दळवी कंकुबाई मधुकर भोईर चंपाबाई देऊ भोईर सरस्वती श्रीपत दळवी शांताराम शिवा दळवी रामचंद्र शिवा दळवी विठ्ठल श्रीपत दळवी जगन्नाथ वामन दळवी यमुनाबाई वामन दळवी कमलाबाई बाबु गाडगे सुमन लक्ष्मण भोईर बेबीबाई भास्कर गायकर मंगळीबाई शंकर पावशे तुकाराम श्रीपत दळवी शेऊबाई काशिनाथ केणे गुणाबाई पडु मगर ताईबाई शांताराम गायकर रंजना उर्फ बेबीबाई एकनाथ दळवी मंगेश एकनाथ दळवी रविंद्र एकनाथ दळवी मिलिंद एकनाथ दळवी सचिन एकनाथ दळवी				
7	161/202 2	गुरव ली	कल्या ण	हुसेन मियां सुभान कुंगले	86/14	1	0.1490	0.0178
8	161/202 2	गुरव ली	कल्या ण	किशोर चंद्रकांत गुप्ते विश्वास चंद्रकांत गुप्ते बुध्या राघो कातकरी (सं.कु) चंदु मंगल कातकरी (सं.कु) जनाबाई मंगल कातकरी (सं.कु)	86/15	1	0.2120	0.0104

				नंदु मंगल कातकरी (सं.कु) रमेश मंगल कातकरी (सं.कु) सुनिता गुरुनाथ बाघे (सं.कु)				
9	161/202 2	गुरव ली	कल्या ण	विल्यम लियो फेर्नांडीस ग्लॅडविन डाईस विष्णु श्यामलाल रजक रमेश चंद्र पांडे रामस्वारथ डिल्लू यादव रमेशचंद्र एस पांडे रवि विष्णु रजक	86/16	1	0.3130	0.0170
10	161/202 2	गुरव ली	कल्या ण	संतोष लक्ष्मण देशमुख लता अशोक देशमुख आशा दिलीप देशमुख	86/1	1	0.1310	0.0100
11	161/202 2	गुरव ली	कल्या ण	निता वसंत दळवी	85/11	1	0.0910	0.0352
12	161/202 2	गुरव ली	कल्या ण	वसंत शांताराम दळवी यशवंत गणपत दळवी नंददीप तानाजी कवे	85/4	1	0.1110	0.0472
13	161/202 2	गुरव ली	कल्या ण	किशोर चंद्रकांत गुप्ते विश्वास चंद्रकांत गुप्ते कृष्णा राघो दळवी (सं.कु)	85/3	1	0.0760	0.0445
14	161/202 2	गुरव ली	कल्या ण	मार्ग	131/4	सरका र	0.2800	0.0118
15	161/202 2	गुरव ली	कल्या ण	दिनेश कचरू केणे संजय कचरू केणे	131/6	1	0.1300	0.0339
16	161/202 2	गुरव ली	कल्या ण	किशोर चंद्रकांत गुप्ते विश्वास चंद्रकांत गुप्ते कांताबाई हरी भोईर (सं.कु) जिजाबाई मुकुंद शेलार (सं.कु) पंडीत हरी जाधव (सं.कु) भिमाबाई भास्कर पाटील (सं.कु) लिलाबाई अर्जुन गायकर (सं.कु) सावित्रीबाई पंढरीनाथ दळवी (सं.कु)	131/5	1	0.0300	0.0137

				सुमन बाळू गिते (सं.कु)				
17	161/202 2	गुरव ली	कल्या ण	शशिकांत शंकर देशमुख हेमलता हरिश्चंद्र देशमुख मध्य रेल्वे घाटकोपर	3/5	1	0.0400	0.0168
कुल							1.813 हे. आर	0.2844 हे. आर

[फा.सं. G197/2024/Kalyan-Asangaon/Nov/20A II]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th November, 2024

S.O. 5199(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 (A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Kalyan-Asangaon 4th line** in the District of Thane in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under Sub-Section (1) of section 20 D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub Divisional Officer, Kalyan, District Thane, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under Sub-Section (2) of Section 20 D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project “Kalyan-Asangaon 4th line” of Vaveghar and Guravli villages in Kalyan Taluka under Competent Authority for Land Acquisition and Sub Divisional Officer’s Office, Kalyan, District Thane in the State of Maharashtra.

Sr. No.	LAC No.	Name of Village	Taluka	Land holder’s name	Survey No.	Land holding method	Total Area as per 7/12 (H.R)	Acquisition Area (H.R)
1	156/2022	Vaveghar	Kalyan	Anjana Urf Kamal Baban Shelar Sharad Baban Shelar Murli Baban Shelar Sunanda Yashwant Tarmale Rohini Jagan Kadav	24	2	0.0510	0.0043
2	156/2022	Vaveghar	Kalyan	Mahadu Nau Shelar	25	2	0.3030	0.0180
3	156/2022	Vaveghar	Kalyan	Shankar Dagdu Shelar	31 Pt.	2	5.1000	0.0344

				Sundarabai Tukaram Lone Haridas Vitthal Shelar Mina Pralhad Toke Shewantabai Pandurang Shelar Santosh Pandurang Shelar Bebibai Ramchandra Lone Gotiram Pandurang Shelar Ratan Ramesh Mate Ranjana Madhukar Mate Sunita Sanjay Patil Anandibai Sonu Shelar Shantaram Sonu Shelar Sudhakar Sonu Shelar Vijay Sonu Shelar Narayan Sonu Shelar Naresh Sonu Shelar Deepak Sonu Shelar Suman Pundalik Satpute Manisha Kamlakar Gaikar Kundalik Damu Shelar Baban Damu Shelar Laxmibai Babu Shelar Suresh Babu Shelar Ashok Damu Shelar Kamlakar Damu Shelar Bhaskar Damu Shelar Bhaskar Damu Patil Bansraj Punvasi Yadav Kalpana Ashok Ubale Mahadu Nau Shelar Tarabai Mangal Kashiwale Mangal Ramchandra Kashiwale				
4	156/2022	Vaveghar	Kalyan	Kundalik Damu Shelar Baban Damu Shelar Suresh Balu Shelar Ashok Damu Shelar Kamlakar Damu Shelar Bhaskar Damu Shelar	30 Pt.	1	2.1700	0.0278
5	156/2022	Vaveghar	Kalyan	Suresh Balu Shelar Ashok Damu Shelar Kamlakar Damu Shelar Kundalik Damu Shelar	34 Pt.	1	2.6200	0.0115

				Baban Damu Shelar Bhaskar Damu Shelar Omprakash Muniraj Yadav Yogesh Diwakar Bhat				
Total							10.244	0.0960
6	161/2022	Guravli	Kalyan	Sundarabai Govind Bhoir Jiubai Sitaram Patil Sakhu Babu Bhalerao Anusaya Shiva Dalvi Gopinath Shiva Dalvi Gangaram Vaman Dalvi Baban Shiva Dalvi Kankubai Madhukar Bhoir Champabai Deu Bhoir Saraswati Shripat Dalvi Shantaram Shiva Dalvi Ramchandra Shiva Dalvi Vitthal Shripat Dalvi Jagannath Vaman Dalvi Yamunabai Vaman Dalvi Kamlabai Babu Gadge Suman Laxman Bhoir Bebibai Bhaskar Gaikar Mangalibai Shankar Pavshe Tukaram Shripat Dalvi Sheubai Kashinath Kene Gunabai Padu Magar Taibai Shantaram Gaikar Ranjana Urf Bebibai Eknath Dalvi Mangesh Eknath Dalvi Ravindra Eknath Dalvi Milind Eknath Dalvi Sachin Eknath Dalvi	95/2 Pt.	1	0.2500	0.0261
7	161/2022	Guravli	Kalyan	Husain Miya Subhan Kungale	86/14	1	0.1490	0.0178
8	161/2022	Guravli	Kalyan	Kishor Chandrakant Gupte Vishwas Chandrakant Gupte Budhya Ragho Katkari (S.K) Chandu Mangal Katkari (S.K) Janabai Mangal Katkari (S.K) Nandu Mangal Katkari (S.K) Ramesh Mangal Katkari (S.K) Sunita Gurunath Waghe (S.K)	86/15	1	0.2120	0.0104

9	161/2022	Guravli	Kalyan	Wiliam Lio Fernandis Gladwin Dais Vishnu Shyamlal Rajak Ramesh Chandra Pandey Ramswarath Dillu Yadav Rameshchandra S. Pandey Ravi Vishnu Rajak	86/16	1	0.3130	0.0170
10	161/2022	Guravli	Kalyan	Santosh Laxman Deshmukh Lata Ashok Deshmukh Asha Dilip Deshmukh	86/1	1	0.1310	0.0100
11	161/2022	Guravli	Kalyan	Nita Vasant Dalvi	85/11	1	0.0910	0.0352
12	161/2022	Guravli	Kalyan	Vasant Shantaram Dalvi Yashwant Ganpat Dalvi Nanddeep Tanaji Kave	85/4	1	0.1110	0.0472
13	161/2022	Guravli	Kalyan	Kishor Chandrakant Gupte Vishwas Chandrakant Gupte Krishna Ragho Dalvi (S.K)	85/3	1	0.0760	0.0445
14	161/2022	Guravli	Kalyan	Road	131/4	Government	0.2800	0.0118
15	161/2022	Guravli	Kalyan	Dinesh Kachru Kene Sanjay Kachru Kene	131/6	1	0.1300	0.0339
16	161/2022	Guravli	Kalyan	Kishor Chandrakant Gupte Vishwas Chandrakant Gupte Kantabai Hari Bhoir (S.K) Jijabai Mukund Shelar (S.K) Pandit Hari Jadhav (S.K) Bhimabai Bhaskar Patil (S.K) Lilabai Arjun Gaikar (S.K) Savitribai Pandharinath Dalvi (S.K) Suman Balu Gite (S.K)	131/5	1	0.0300	0.0137
17	161/2022	Guravli	Kalyan	Shashikant Shankar Deshmukh Hemlata Harishchandra Deshmukh Central Railway Ghatkopar	3/5	1	0.0400	0.0168
Total							1.813 H.R	0.2844 H. R

[F. No. G197/2024/Kalyan-Asangaon/Nov/20A II]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Const.)